



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 माघ 1945 (श०)  
(सं० पटना 134) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2024

---

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जनवरी 2024

सं० 1स्था०-148/2017-251/वि०सं०—सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०-1स्था०-148/17-2511, दिनांक 24.11.2022 के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 3 के उप नियम (क) एवं (ख) के अध्यक्षीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, वित्त विभाग के परामर्श से बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 की अनुसूची में निम्नवत् संशोधन करते हैं:-

1. अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक-3 निदेशक के स्वीकृत बल कॉलम में '02 (दो)' के स्थान पर '07 (सात)' प्रतिस्थापित किया जाता है ।
2. अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक-4 उप सचिव के स्वीकृत बल कॉलम में '12 (बारह)' के स्थान पर '13 (तेरह)' प्रतिस्थापित किया जाता है ।
3. अनुसूची के पुस्तकालय संवर्ग के क्रमांक-14 पर संयुक्त निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध-संदर्भ) के स्थान पर उप निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध-संदर्भ) प्रतिस्थापित किया जाता है ।
4. अनुसूची के क्रमांक-14A को विलोपित किया जाता है ।

5. वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासनिक संवर्ग के लिए उप सचिव के तीन परामर्शित पदों में से एक को संयुक्त निदेशक में परिवर्तित करते हुए अनुसूची के सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसम्पर्क संवर्ग में क्रमांक-19 पर संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क) का एक नया पद जोड़ा जाता है तथा पूर्व के क्रमांक-19 पर के पद उप निदेशक (जनसम्पर्क) को एक नया क्रमांक 19A को सृजित करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधर पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्ती		
प्रशासनिक संवर्ग							
3.	निदेशक	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-13	100 %	-	बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता ।	07 (सात)
4.	उप सचिव	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-12	100 %	-	बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता ।	13 (तेरह)
पुस्तकालय संवर्ग							
14.	उप निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध-संदर्भ)	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-11	100 %	-	बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता ।	01 (एक)
सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसम्पर्क शाखा							
19.	संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-12	100 %	-	उप निदेशक (जनसम्पर्क) श्रेणी के वैसे व्यक्ति जो उप निदेशक (जनसम्पर्क) की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त रूप से उप निदेशक एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी की श्रेणी में आठ वर्ष रहें हो।	01 (एक)

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधर पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्ती		
19A.	उप निदेशक (जनसम्पर्क)	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-11	100 %	-	बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता ।	01 (एक)

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०-2511, दिनांक 24.11.2022 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,  
राज कुमार,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 134-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>